

16th March, 2020

BSE Ltd. Corporate Relationship Department	National Stock Exchange of India Ltd Listing Department, Exchange Plaza,
1st Floor New Trading Rotunda Building, PJ Towers Dalal Street Fort,	Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051
Mumbai – 400001 Scrip Code – 530517	Scrip Code – RELAXO

Sub: Newspaper Advertisement regarding loss of share certificates

Dear Sir,

In continuation to our letter dated 13th March, 2020 with the subject captioned as Information regarding loss of share certificates, we enclose herewith newspaper advertisement for the same, published in Financial Express and Jansatta, Delhi Edition on 14th March, 2020.

Kindly take the above information on record and acknowledge the same.

Thanking You, Yours Sincerely,

For Relaxo Footwears Limited,

Vikas Kumar Tak

Company Secretary and Compliance Officer

Membership No.: FCS 6618

Encl. as above

RELAXO FOOTWEARS LIMITED

Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085. Phones: 46800 600, 46800 700 Fax: 46800 692 E-mail: rfl@relaxofootwear.com

CIN L74899DL1984PLC019097



BABU LAL GUPTA

E-mail: rfl@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com

NOTICE

Notice is hereby given that the under mentioned share certificates pertaining to

	the Company have ertificates in lieu then				
FOLIO NO.	NAME OF HOLDER	CERT. NO(S).	DISTINCTIVE NOS.	NO. OF SHARES	FACE VALUE OF SHARES (in ₹)

Any person having any claim / objection in respect of the above requests should lodge such claim / objection with Kfin Technologies Private Limited, Company's Registrar and Share Transfer Agent at its office situated at Karvy Selenium Tower B. Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad-500032 or with the Company at its registered office or corporate office at Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi – 110 085 within 15 days of the publication of this notice, failing which the Company will consider to give effect to the above requests. For Relaxo Footwears Limited

1.00

Place: New Delhi Vikas Kumar Tak Date: 13th March, 2020 Company Secretary FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT (Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

[Voluntary Liquidation Process] Regulations, 2017) FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF JAI MAA VAISHNO LOHA PRIVATE LIMITED JAI MAA VAISHNO LOHA PRIVATE LIMITED 2. DATE OF INCORPORATION OF 25/07/2007

CORPORATE PERSON REGISTRAR OF COMPANIES-KANPUR CORPORATE PERSON IS INCORPORATED / REGISTERED 4. CORPORATE IDENTITY NUMBER U27310UP2007PTC033668 LIMITED LIABILITY IDENTITY NUMBER OF CORPORATE PERSON 4TH KM, STONE, OPPOSITE TATA DHARAM KANTA

OFFICE AND PRINCIPAL OFFICE VEHLANA CHOWK, MEERUT ROAD MUZAFFARNAGAR UP 251003 09/03/2020 DATE OF CORPORATE PERSON NAME, ADDRESS, EMAIL ALOK KUMAR KUCHHAL

R/O: C-154, SECTOR-51 NOIDA-201301

PH NO: +91-9810894275 NUMBER OF THE LIQUIDATOR Email: akkuchhal.ip@gmail.com Reg No : IBBI/IPA-002/IP-N00114/2017-18/10284 8. LAST DATE FOR SUBMISSION OF Notice is hereby given that the JAI MAA VAISHNO LOHA PRIVATE LIMITED has commenced

ADDRESS, TELEPHONE NUMBER

voluntary liquidation on 09th March, 2020

Chandani Garg And Another...

AND THE REGISTRATION

mentioned against item No. 7 The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

The stakeholders of JAI MAA VAISHNO LOHA PRIVATE LIMITED are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 08th April, 2020 to the liquidator at the address

ALOK KUMAR KUCHHAL Date: 12th March, 2020 IBBI/IPA-002/IP-N00114/2017-18/10284 Place : Noida

Form No.:5

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW 600/1, University Road, Near Hanuman Setu Temple, Lucknow-226007.

(Area of Jurisdiction: Part of Uttar Pradesh) Summons for filling Reply & Appearance by Publication

O.A. No. 355/2019 Summons to defendants under Section 19(3) of the Recovery of debts due to the Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with rule 12 and 13 of the

Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules 1993) Syndicate Bank, .Applicant. Versus

.Defendants

1- Smt. Chandani Garg D/o Subhash Chand Garg W/o Yogendra Pratap Singh, D-901 Subhkamana Apartments, F-31, Sector - 50, Noida, District - Gautam Buddh Nagar 201301 & 417, Avas Vikas, Roorkee (Uttarakhand) - 247667

2- M/s La Residentia Developers Pvt. Ltd., Registered Office at - 220, 2nd Floor

Vardhman Sunrise Plaza, Plot No. - 1, SSC, Vasundara Enclave, Delhi - 110096 8 Corporate Office At - Amrapali Corporate Tower, C-56/40, Sector - 62, Noida, District -Gautam Buddh Nagar - 201309 & Flat No. T-7, 1904, 19th Floor, Tower - T-7, Amrapali La Residentia, situated at Plot No. GH-06A, Noida Extension, Techzone, District - Gautam Buddh Nagar Through Authorized Signatory. In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets

along with documents and affidavits, (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the Summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 28/05/2020 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Registrar: Debts Recovery Tribunal, Lucknow.

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-III, AT DELHI

DELHI 4th FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, PATEL CHOWK, NEW DELHI-110001 RC No. 937/2018 PROCLAMATION OF SALE PROCLAMATION OF SALE UNDER RULES 38, 52(2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME

TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANK AND FINANCIA INSTITUTIONS ACT, 1993 TITLE OF THE CASE

Axis Bank ... Certificate Holder Versus SAURABH VERMA & OTHERS . Certificate Debtor

CD No. 1. Saurabh Verma, L 179, Sarojini Nagar, Ground Floor Near RBI Office, New Delhi 110023 Also at: Grande Pavilion Sec 96, Expressway Near Amity School, Noida 201 305

CD No. 2. Kritika Nigam, L 179, Sarojini Nagar, Ground Floor Near RBI Office, New Delhi 110023. CD No. 3. Jaipuria Buildcon Private Limited, 2nd Floor, 16 Shankar Vihar, Vikas Marg. Delhi 92. Also at 507, STN Floor, KM Trade Tower, Sector 14, Radisson Blu, Kaushambi, Ghaziabad.

Also at: Jaipuria Buildcon Private Limited., Flat No. 1302, G.H. 7, Sector 3, Sky Tech Magadh Society CD NO. 4. Ashok Goel, Director of the Jaipuria Buildcon Private Limited Flat No. 1301, Skytech Magadi

Society, See 4, Vaishali Ghaziabad CD No. 5. Vandana Goel Ashok, Director of the Jaipuria Buildcon Private Limited Flat No. 1301, Skyteci

Magadh Society, Sec 4, Vaishali, Ghaziabad Whereas you has/have failed to pay the sum of Rs. 21,90,517/- (Rupees Twenty One Lakhs Ninety

Thousand Five Hundred and Seventeen Only), has become due from you as per Recovery Certificate drawn in OA No. 528 of 2015 /DRT-III by the Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-III, Delhi along with cost, incidental expenses and interest payable @ 10% p.a simple interest w.e.f 30.07.2015, as per certificate. And whereas the undersigned has ordered the sale of property mentioned in the Scheduli below in satisfaction of the said certificate. Notice is hereby given that in absence of any order of postponement, the said property shall be sold or

10.04.2020 between 3.00 PM to 4.00 PM (with auto extension clause in case of bid in last 5 minutes before closing, if required) by M/s. C-1 India Pvt. Ltd., Udyog Vihar, Phase 2, Building No. 301, Gurgaon Haryana (India) Tel.: =91 7291981124/25/26 Contact person Sh. Vinod Chauhan, Mobile No. 9813887931 email: support@bankeauctions.com. Website Https://www.bankeauctions.com For further details contact: Bank officer Sh. abhinav Kumar Pandey having mobile No

The sale will be of the property of the defendant above named as mentioned in the schedule below and

the liabilities and claims attaching to the said property, so far as they have been ascertained, are those No officer or other person, having any duty to perform in connection with sale, however, either directly or

indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold. The sale shall be subject to the conditions prescribed in Second Schedule of the Income Tax Act, 1961 and the rules made there under and to the further following conditions. The particulars specified in the annexed schedule have been stated to the best of the information of the

undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, mis-statement or omission in this proclamation . The description of properties, Reserve Price and EMD are as under: Reserve price/EMD S. Property particulars

	1.0000	No.
00/- (Rupees Thirty Lakhs thousand Only) ,600/-(Rupees Three Lakhs usand Six Hundred Only)	Property bearing No. Flat No. B- 1101, 11th Floor, Block-B. Jaipuria Appt., Secotr-1, GH-6, Crossing, Dundhera, Ghaziabad.	1
	Dundhera, Ghaziabad. properties shall not be sold below the reserve the amount by which the biddings are to be increa	

Only). In the event of any dispute arising as to the amount of bid, or as to the bidder, the property shall at once be again out up to auction. 3. The highest bidder shall be declared to be the successful highest bidder. It shall be in the discretion of

the undersigned to decline/acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so. EMD shall be deposited by 08.04.2020 way of DD/pay order in favour of Recovery Officer-I. Debt

Recovery Tribunal-III, Delhi in the sealed cover. EMD deposited thereafter shall not be considered for participation in the e-auction. The copy of PAN card, Address proof and identity proof, E-mail ID, Mobile No. and declaration if the are bidding on their own behalf or on behalf of their principals. In the latter case, they shall be required to

deposit their authority, and in default their bids shall be rejected. In case of the company copy of resolution passed by the board members of the company or any other document confirming representation /attorney of the company and the receipt/counter file of such deposit should reach to the said service provider or CH Bank by e-mail or otherwise by the said date and hard copy shall be submitted before the Recovery Officer-I, DRT-III, New Delhi. The successful highest bidder shall have to deposit 25% of his final bid amount after adjustment of EMD by next bank working day i.e. by 3:00 P.M.in the said account as per detail mentioned in para

above. The successful highest bidder shall deposit the balance 75% of final bid amount on or before 15th day from the date of sale of the property. If the 15th day is Sunday or other Holiday, then on the first

bank working day after the 15th day by prescribed mode as stated in para 4 above. In addition to the above the successful highest bidder shall also deposit poundage fee with Recovery Officer-I, DRT-III @2% upto Rs.1,000/- and @1% of the excess of said amount of Rs.1,000/-through DD in favour of The Registrar, DRT-III. Property shall remain open for inspection by prospective bidders on 03.04.2020 from 11.00 a.m. to 4.00 p.m.

9. In case of default of payment within the prescribed period, the property shall be resold, after the issue of fresh proclamation of sale. The deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned

thinks fit, be forfeited to the Government and the defaulting successful highest bidder shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold. 10. The property is being sold on "AS IS WHERE IS BASIS AND AS IS WHAT IS BASIS". 11. The undersigned reserves the right to accept or reject any or all bids if found unreasonable or

postpone the auction at any time without assigning any reason. 12. There is no detail of revenue/encumbrance or claim against the properties in the knowledge of

undersigned at this stage. However, prospective bidders are advised to make their own due diligence w.r.t dues of electricity/waten/house tax bills or any other encumbrance etc., in their own interest, before deposit of EMD. Unsuccessful bidder/s are directed to file an application along with identity proof in the Registry of

DRT-Ill on or before the next schedule date of hearing of the RC for refund of their EMD which shall be refunded on the schedule/subsequent date of hearing of the RC accordingly. 14. CH Bank is directed to authenticate and check the veracity of details given herein.

Given under my hand and seal on this 06th day of February, 2020. RECOVERY OFFICER-I, financialexp.epapr. TRT-HI, DELHI

INTERNATIONAL

SATURDAY, MARCH 14, 2020

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Pursuant to Regulation 31(2) read with regulation 12(3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations 2016

In the matter of YAMUNA INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED

(CIN: U70200DL2012PTC233903) - In Liquidation All concerned are hereby informed that the undersigned acting as Liquidator in the matter of YAMUNA INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED (under Liquidation), has filed the list of stakeholders with the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi, on 12th March, 2020 pursuant to the provisions of Regulation 31(2) read with Regulation 12(3) of the Insolvency and

Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations 2016. As there is no functional website of the Company (Corporate Debtor), hence the List of Stakeholders showing complete details of amount of Claims Admitted by the Liquidator, extent upto which claims are secured/unsecured, will be available for inspection at the office of the

Liquidator :- 45-46, Basement, Satya Niketan, Moti Bagh-II, New Delhi-110021

The Stakeholders are further notified that any modification of entries in the List of Stakeholders as filed with the Hon'ble NCLT, can be made only by filing an application with the Hon'ble NCLT RITA GUPTA Liquidator - YAMUNA INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED

Date: 14.03.2020 REG NO: IBBI/IPA-001/IP-P00149/2017-18/10313 Place: New Delhi Email:- liq.yipl@gmail.com, ritaca_1996@yahoo.co.in

TO THE STAKEHOLDERS (INCLUDING CREDITORS) OF "EMPATHY INFRA AND ENGINEERING PVT. LTD." (UNDER CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PUBLIC NOTICE

This notice is with reference to earlier public announcement made by Erstwhile Interim Resolution Professional, Mr. Amit Jain in newspaper (Jansatta - Hindi and Financial Express – English) on 23.12.2019. Stakeholders of M/S EMPATHY INFRA and ENGINEERING PVT. LTD, are requested to note

that Hon'ble NCLT Chandigarh Bench vide its order dated 24.02.2020 has appointed the undersigned as the Interim Resolution Professional of the M/s Empathy Infra and Engineering Pvt. Ltd. in replacement of Erstwhile Interim Resolution Professional, Mr. Amit Hence stakeholders are requested to communicate with the undersigned for all future

communications from the date of this notice in connection with the Corporate Insolvency Resolution Process of the Corporate Debtor M/s Empathy Infra and Engineering Pvt. Ltd. The relevant details of Corporate Insolvency Resolution Process are mentioned below: RELEVANT PARTICULARS

_	Principal Ar	HILL I HILLIOUS HILL
1	Name of Corporate Debtor	Empathy Infra and Engineering Private Limited
2	CIN	U45400HR2012PTC047281
3	Registered Address of corporate debtor	305 C, Third Floor, Sohna Road, Sector 48, Gurgaon, Haryana-122002
4	Name of IRP (from 24.02.2020)	Mr. Pardeep Kumar Lakhani
5	Registration No.	IBBI/IPA-001/IP-P00541/2017-2018/10966
6	Registered Address of IRP	879, Sector 40, Near Community Center, Gurgaon, Haryana ,122012
7	Address of IRP for communication	KVG Insolvency Advisors Pvt. Ltd. C/o Pardeep Kumar Lakhani 405, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001
D	Date: 13.03.2020	Pardeep Kumar Lakhani

Interim Resolution Professional Place: New Delhi Empathy Infra Engineering Pvt. Ltd Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00541/2017-2018/10966

Form No.:5

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW 600/1, University Road, Near Hanuman Setu Temple, Lucknow-226007.

(Area of Jurisdiction: Part of Uttar Pradesh) Summons for filling Reply & Appearance by Publication

Summons to defendants under Section 19(3) of the Recovery of debts due to the Banks and Financial Institutions Act. 1993 read with rule 12 and 13 of the

Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules 1993) Syndicate Bank, .Applicant. Sanjeev Kumar Shukla And Another.. .Defendants

 Sanjeev Kumar Shukla S/o Devendra Shukla, H.No. 28, Gali no.2, K-Block, Near Sanatan Dharam Mandir, Mahipalpur, New Delhi - 110037 & Village - Purwan Mehra, Post - Gl Estate, near Gorakhpur Road, Deoria (U.P.) - 274001

110092 & Corporate Office At - Amrapali Corporate Tower, C-56/40, Sector - 62, Noida, District - Gautam Buddh Nagar - 201309 & Flat No. T-21, 2203, 22th Floor, Tower - T-21, Amrapali La - Residentia, situated at Plot No. Gl, Noida Extension, Techzone-4, District - Gautam Buddh Nagar Through Authorized Signatory. In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets

2- M/s La Residentia Developers Pvt. Ltd., Registered Office at - 195, Ram Vihar, Delhi

along with documents and affidavits, (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the Summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 01/06/2020 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Registrar: Debts Recovery Tribunal, Lucknow.

LCRD - New Delhi Division FEDERAL BANK

The Federal Towers, 2/2, First Floor, West Patel Nagar, New Delhi-110008 Ph No.011-40733978, 79, 80, 82

NOTICE U/S 13 (2) OF SARFAESI ACT 2002, (here in after referred to as Act) r/w Rule 3(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002. 1. Ws Jagrit Poultry Farm a partnership firm having its registered office atH. No-382-

YOUR PERFECT BANKING PARTNER

B,Old Koth, Sector-13, Extension, Karnal, Haryana represented by its partners (a) Shri Atam Parkash SloShnAtma Ram & (b) Shri Arun Choudhary SloShnAtam Parkash. Shri Atam Parkash Slo Shri Atma Ram residing at H.No-382-B,Old Kothi, Sector-Extension, Karnal, Haryana

 Shri Arun Choudhary Slo Shri Atam Parkash residing at House H.No-382-B, Old Kothi, Sector-13, Extension, Karnal, Haryana.

facilities availed.

Notice issued under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as Act) The 1" of you as principal borrower and 2" and 3" of you as guarantors/co-obligants

had availed of, inter alia, CC Limit of Rs.65 Lionginally on 29.10.2015 and lastly renewed with enhancement for Rs 90L on 31.03.2018 and Term Loan Limit of Rs.99 L on 29.10.2015 from the Federal Bank Limited, a company registered under the Companies Act, 1956 having registered office at Alwaye (hereinafter referred to as the bank) through its branch at Karnal for working capital requirements. In consideration the reof you had executed in favour of the Bank security agreements , DPN letc. Towards the security of the aforesaid credit facilities availed from the Bank, the all of

you have created security interest infavour of the Bank by way of hypothecation in respect of the following properties:-DESCRIPTION OF HYPOTHECATED MOVABLE PROPERTIES

1. For CC Limit-Hypothecation of stocks of feeds, medicine sat 25% margin stored at Village Kunipura, Mugal Majra Road, Karnal-132001, Haryana.

For TL Limit- Hypothecation of plant & machinery, cages, feed trolly, generator set, pump set etccreated out of Bank Finance. Towards the security of the aforesaid credit facilities availed from the Bank,Mir Arun

Choudhary had created security interest in favour of the Bank by way of mortgage in respect of the following immovable properties on 31/10/2015 and later the said mortgage created was extended from time to time. The last of such extension being 19/04/2018. The said mortgage is continuing in respect of the said credit

DESCRIPTION OF MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY Item (1)- All that piece and parcel of the property bearing House M.C. No. 382-B Located at Sector 13 Extension, HUDA Urban Estate, Karnal, Haryana State having

an area measuring 264 sq. yards, together with all buildings existing and/or to be constructed, bounded on the East by 45 -6" + 8-3", House of Prayeen Kumar, West by 11'-5" + 44'-9" House of Sanjeev Kumar, North by 41'-11" Closed Gali and South by 43'-0", Closed Gali The aforesaid hypothecated assets mentioned in the notice and the mortgaged

properties mentioned at item (1) here nafter referred to as 'the secured assets'. The undersigned being Authorised Office rof the Federal Bank Ltd. hereby inform you that a sum of ₹ 93,88,634.00 [Rupees Ninety Three Lac Eighty Eight Thousand and Six Hundred Thirty Four only) in Cash Credit Account No. 16495500000082 as on 03-01-2020 & ₹ 55,52,304.38 |Rupees Fifty Five Lac Fifty Two Thousand Three Hundred Four & Paise Thirty Eight only) in Term Loan Account No. 16496600000071 as on 31.01.2020, re an amount totalling ₹ 1.49.40.938.38 | Rupees One Crore Forty Nine Lac Forty Thousand Nine Hundred Thirty Eight and Paise Thirty Eight only) is due from you jointly and severally under your loan accounts with Karnal branch of the Bank. In view of the default in repayment, your loan accountly islare classified as Non-Performing Asset, as per the guideline of RBI. All of your as co-obligant/co-borrower and also in the capacity of legal heirs are liable to pay the dues of the Bank. You are hereby called upon to pay the said amount with further interest interest@ 11% per annum with monthly rests plus penal interest @ 2% per annum from 01/01/2020 in CC Limit 16495500000082 and interest @ 10.50% per annum from 01-02-2020 with monthly rests plus penal interest @ 2% per annum in TL 16496600000071, failing which, the Bank will exercise all the powers under section 13 of the Act against you and the above mentioned secured assets such as taking possession thereofind uding the right to transfer them by way of lease, assignment or sale, or taking over the management of the secured assets for realising the dues without any further notice to you. It is informed that, you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise any of the above mentioned secured assets without the Bank's written consent. In the event of your failure to discharge your liability and the bank infliates remedial actions as stated above, you shall further be liable to pay to the bank all cost, charges and expenses incurred in that connection. In case the dues are not fully satisfied with the sale proceeds of the secured assets, the bank shall proceed against you personally for the recovery of the balance amount without further notice. Your attention is also invited to the provisions of section 13 [8] of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets (security properties). This notice was issued on 24" day of February 2020 but seems not received by you , which necessitated this publication as per the SARFAESI Act. This notice is issued without prejudice to the other rights and remedies

For The Federal Bank Ltd., Assistant Vice President

(Authorised Officer under SARFAESI Act)

available to the bank for recovering its dues.

Dated this the 12° Day of March 2020

Pak investigates owner of largest media group on graft charges

A PAKISTANI COURT on Friday allowed an anti-corruption body to investigate the owner of the country's largest media group on allegations of graft dating

backthreedecades, a move that rights groups said was aimed at stifling press freedom. Mir Shakil-ur-Rehman, the owner and editor-in-chief of Jang

media group, publisher of Urdu and English newspapers and which runs the popular Geo Neus TV, was arrested on Thursday by the National Accountability

Bureau (NAB).

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

NAB accused him of obtaining illegal property concessions from a previous government in 1986. -REUTERS

kotak WHEREAS, THE AUTHORIZED OFFICER OFBAJAJ FINANCE LIMITED(BFL),UNDER THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND

Kotak Mahindra Bank Limited REGISTERED OFFICE: 27BKC, C-27, G-BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA (E), MUMBAI- 400051

ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (54 OF 2002) AND IN EXERCISE OF POWERS CONFERRED UNDER SECTION 13(12) READ WITH RULE 3 OF THE

SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002 ISSUED DEMAND NOTICES TO THE BORROWER/S. AS DETAILED HEREUNDER, CALLING UPON THE RESPECTIVE

BORROWERS TO REPAY THE AMOUNT MENTIONED IN THE SAID NOTICES WITH ALL COSTS, CHARGES AND EXPENSES TILL ACTUAL DATE OF PAYMENT WITHIN 60 DAYS FROM THE DATE OF RECEIPT OF THE SAME LATER ON BAJAJ FINANCE LIMITED HAS VIDE DEED OF ASSIGNMENT DATED 19.12.2018 HAS ASSIGNED THE DEBT

BRANCH OFFICE: 7TH FLOOR, PLOT NO.7, SECTOR - 125, NOIDANEAR DELL CAMPUS, UP - 201313

POSSESSION NOTICE

TO KOTAK MAHINDRA BANK: THE SAID BORROWER(S)/ CO BORROWER(S) HAVING FAILED TO REPAY THE AMOUNT, NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE BORROWERS CO BORROWERS AND THE PUBLIC IN GENERAL THAT THE UNDERSIGNED BEING THE AUTHORIZED OFFICER OF KOTAK MAHINDRA BANK HAS TAKEN PHYSICAL THE SAID RULES ON THE DATES MENTIONED ALONG-WITH. THE BORROWERS IN PARTICULAR AND PUBLIC IN GENERAL ARE HEREBY CAUTIONED NOT TO DEAL WITH THE PROPERTIES AND ANY DEALINGS WITH THE PROPERTIES WILL BE SUBJECT TO THE CHARGE OF KOTAK MAHINDRA BANK LTD.. FOR THE SPECIFIED THEREIN WITH FUTURE INTEREST, COSTS AND CHARGES FROM THE RESPECTIVE DATES. THE BORROWERS ATTENTION IS INVITED TO PROVISIONS OF SUB SECTION (8) OF SECTION 13 OF THE ACT, IN RESPECT OF TIME AVAILABLE TO REDEEM THE SECURED ASSETS. DETAILS OF THE BORROWERS, SCHEDULED PROPERTY, OUTSTANDING DUES, DEMAND NOTICES SENT UNDER SECTION 13(2) AND AMOUNTS CLAIMED THERE UNDER, DATE OF POSSESSION IS GIVEN HEREIN BELOW: NAME AND ADDRESS OF THE BORROWER, 1. DATE OF POSSESSION 2. DEMAND DETAILS OF THE IMMOVABLE PROPERTY CO-BORROWER LOAN ACCOUNT NO., LOAN AMOUNT NOTICE DATE 3. AMOUNT DUE IN RS. MAINI S/O LATE P.L. MAINI&MR. RAKSHAK ALL THAT PIECE AND PARCEL OF THE NON-AGRICULTURAL MR. AJAY MAINI BOTH AT RESIDING AT HOUSE PROPERTY DESCRIBED AS "PROPERTY NO. 81, BLOCK-C, 2). 27.10.2016 3RD FLOOR, DEFENCE COLONY, NEW DELHI- SECTOR-23, GAIL VIHAR, NOIDA 201301. PROPERTY AS PER 3).

M/S MAINI SCAFFOLD SYSTEMS THROUGH ITS TITLE DOCUMENT: ALL THAT PIECE AND PARCEL OF CRORE TWO LAKH FORTY SIX &M/S MAINI CONSTRUCTION EQUIPMENTS RESIDENTIAL LEASE HOLD PLOT NO. 81, SITUATED AT BLOCK-C THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY THROUGH ITS DIRECTORS BOTH AT: CARRYING SECTOR -23, NOIDA DISTT. GAUTAM BUDH NAGAR (U.P.) HAVING FIVE ONLY) AS OF 24.02.2020 WITH ON BUSINESS AT B-1, A-21, (GROUND FLOOR) MOHAN CO- PLOT AREA MEASURING 300 SQ. MTRS. ALONG WITH BUILT-UP FURTHER APPLICABLE INTEREST STRUCTURE STANDING THEREON HAVING TOTAL COVERED FROM 25.02.2020 ALONGWITH COST OPERATIVE INDUSTRIAL ESTATE, NEW DELHI-110044 AREA 389.26 SQ. MTRS. DULY ALLOTED BY THE NOIDA AND CHARGES UNTIL PAYMENT IN LOAN ACCOUNT NO: 4010HL14339547 LOAN SANCTIONED AMOUNT: RS. 3,65,00.000/- (RUPEES | AUTHORITY FULL. NAME OF THE MORTGAGER: MR. AJAY MAINI S/O LATE P.I. THREE CRORE SIXTY FIVE LAKH ONLY)

PLACE: DELHI

DATE: 12.03.2020

For Any Query Please Contact Mr. Lokesh Kumar Mittal (+91 8377809456)

For Kotak Mahindra Bank Limited **Authorized Officer**

Authorised Officer, Syndicate Bank



11/09-11/09 A Silver Line, VIP Road, Civil Lines, Kanpur- 208001, Uttar Pradesh Ph. 0512-2530412 • E-mail: ro.kanpur@syndicatebank.co.in E –Auction sale notice under SARFAESI Act 2002

Notice is hereby given to the public in general and to the Borrower/s and Guarantor/s in particular that the under mentioned property/ies mortgaged to Syndicate Bank, the possession of which has been taken by the Authorized Officer of the Bank under Section 13(4) of the Act will be sold by E- Auction as mentioned below for recovery of under mentioned dues and applicable interest, charges and costs etc as detailed below.

The property described below is being sold on "AS IS WHERE IS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" under the rule no. 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules (hereinafter referred to as the rules) for the recovery of the dues detailed as under: Possession Date Reserve Price Name and Address of Borrower/

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002* (here in after referred to as the Act).

SL No.	Name and Address of Borrower/ Guarantor and Branch	Description of the immovable/Movable properties with name of the Owner/Mortgagers	Possession Date Date of Sale Notice Present O/s Amount	Reserve Price Earnest Money Bid Increase Amount	Date/Time E-Auction	
1.	1. M/s Nysha Transport Company Prop Amit	UREM OF THE RESIDENTIAL PROPERTY	17.10.2019	Rs. 40,13,000.00	21.04.202	
	Nayak, 1178, Near BGM School, Shivaji Nagar,	SITUATED AT HOUSE NO1178 (PART OF ARAZI	26.02.2020	Rs. 4,02,000.00		
	Jhansi-284001, 2. Sri Amit Nayak S/o Sri Harnarayan Nayak R/o 1178, Near BGM School, Shivaji Nagar, Jhansi- 284001. Surety: 1. Sri Sumit Nayak S/o Sri Shivnarayan Nayak R/o 1178, Near BGM School, Shivaji Nagar, Jhansi-284001, 2. Sri Manish Verma S/o Sri Jaychand Verma R/o 184, Shivaji Nagar, Dadiyapura, Jhansi-284001. Branch: Kanpur Road, Jhansi	owned by Sri AMIT KUMAR NAYAK S/o Sri HARNARAYAN NAYAK & Sri SUMIT KUMAR NAYAK S/o Sri SHIVNARAYAN NAYAK and Boundaries : East : PLOT OF OTHERS, West :	01.08.2019	Rs. 10,000.00	A.M. to 12.00 Noo	
2.	Sri Vishal Gupta S/o Sri Satish Gupta, 46/85, Khoya Bazar, Kanpur, Sri Chandan Gupta S/o Sri Satish Gupta, 46/85, Khoya Bazar, Kanpur. Surety: Sri Arvind Sinha S/o Late Sri B.B. Sinha, 110/32, Jawahar Nagar, Kanpur. Branch: Sarvodaya Nagar, Kanpur.	UREM of All the Part and parcel of Property	21.09.2011	Rs. 8,50,000.00	21.04.202	
10.5-10		consisting Plot No5, Part of Arazi No94,	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	Rs. 85,000.00	At 10,00	
		Village-Hora Bangar, Kanpur Nagar admeasuring 83.61 Sq Meter Owned By Sri Vishal Gupta S/o Sri Satish Gupta and Boundries: North: 20 Feet wide Road, South: Arazi No. 95, East: Plot No. 4, West: Plot No 6.	+with future	Rs. 10,000.00	A.M. to 12.00 Noo	

TERMS AND CONDITIONS The EMD shall be deposited through RTGS/NEFT/Fund Transfer to the credit of Syndicate Bank, Kanpur Road, Jhansi Branch A/c No. 93443100000013, IFSC

Code-SYNB0009344 & Mob. No. 9412752054, Syndicate Bank, Sarvodaya Nagar, Kanpur Branch A/c- 86973020000124, IFSC Code SYNB0008697 and Mob. No. 9415550144 before submitting Bids online. EMD can also be paid by way of pay order/ Demand draft in favour of Syndicate Bank payable at Kanpur. 2. The intending bidders should submit the duly filled in Bid form (format available on website given below) along with the DD/PO/quoting the UTR no. of NEFT/RTGS remittance towards EMD in a sealed cover addressed to the Authorised Officer, Syndicate Bank, Regional Office 11/9 Silver Line Building Ground Floor VIP Road Civil Lines Kanpur 208001, so as to reach the same before 18.04.2020 (last date of submission of bid). The sealed cover should be superscribed with "Bid for participating in E-Auction Sale - in the A/C of M/S/Smt./Sri/......". 3. Bidder are advised to visit the Bank's website: www.syndicatebank.in for detailed e-auction notice wherein all the terms and conditions of e-auction sale are furnished. Bidders may also visit the website of service provider or contact them or contact no. 8707586217 for any clarifications/queries. 4. Intending bidders shall hold a valid Digital Signature Certificate, active email address and PAN Number.

The undersigned has the absolute right and discretion to accept or reject any bid or postpone/cancel the sale or modify any terms and conditions of the sale without any prior notice and assigning any reason. 6. The sale shall be subject to the terms and conditions prescribed in the Act, rules and the conditions prescribed in the detailed terms and conditions published in the website. 7. For further details contact the Authorised Officer Syndicate Bank Regional Office 11/9, Silver Line Building, Ground Floor, VIP Road, Civil Lines, Kanpur- 208001, Contact No. 8004941787. For Detail terms & condition of the sale, Please refer to the link provided in secured creditor website https://www.syndicatebank.auctiontiger.net & https://www.syndicatebank.co.in

Date: 14.03.2020 Place: Kanpur INDIAN OVERSEAS BANK (Rajouri Garden Branch)

M/S International Coil Limited,

Last date for submission of online application for BID with EMD

*Bank's dues have priority over the statutory dues.

Name & address of

F-105, Bali Nagar, New Delhi-110015, Phone: 011-25432494 PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES SALE OF IMMOVABLE PROPERTY MORTGAGED TO THE BANK UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002

Whereas, The Authorized Officer of Indian Overseas Bank has taken possession of the following property pursuant to the notice issued under Section 13(2) of the Security Interest(Enforcement) Rules 2002 in the following loan account with right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" for realization of bank's dues plus interest & costs as detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues, the undersigned in exercise of power conferred under Section 13(4) of the said Act proposes to realize the bank's dues by sale of the said property. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the web portal https://auctions.magicbricks.com.

the Borrowers:	Regd Office: A-21/24, Naraina Industrial Area Phase II, New Delhi-110028. Corporate Office: 7th Floor, Building 9B, Cybercity, DLF Phase 3, Gurgaon, Haryana-122002.		
Name & address of the Mortgagors/ Guarantors:	1.M/S Uniaire Pvt Ltd (Mortgagor/Corporate Guarantor) No. 21/24, Block-A, Naraina Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110028. 2.M/S Shurkut Heat Transfer Pvt Ltd (Mortgagor/Corporate Guarantor) No J-9/55C, Rajouri Garden, New Delhi-110027. 3.Mr Jagjit Singh (Personal Guarantor/Mortgagor) Villa No. 17, Tatvam Villas, Z Block Sohna Road, Gurgaon-122004 4.Mr Amardeep Singh (Personal Guarantor/Mortgagor) Villa No. 18, Tatvam Villas, Z Block Sohna Road, Gurgaon-122004 5.Mr Paramjeet Singh (Personal Guarantor) Villa No. 26, Tatvam Villas, Z Block Sohna Road, Gurgaon-122004 6.Mr Sucha Singh (Personal Guarantor) Villa No. 26, Tatvam Villas, Z Block Sohna Road, Gurgaon-122004 7.M/S Coil Company Ltd (Corporate Guarantor) No. 21/24, Block-A, Naraina Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110028		
DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY	 Lot 1: Equitable mortgage of residential property bearing no.55C(Basement & Ground Floor) Block J-9, Rajouri Garden New Delhi-110027, Property in the name of Mr. Jagjit singh and Amardeep Singh. Lot 2: Equitable mortgage of residential property bearing no.55C(First Floor) Block J-9, Rajouri Garden, New Delhi-110027, Property in the name of Mr. Jagjit singh and Amardeep Singh. Lot 3: Equitable mortgage of residential property bearing no.55C(Second Floor) Block J-9, Rajouri Garden, New Delhi-110027, Property in the name of Mr. Jagjit singh and Amardeep Singh. Lot 4: Equitable mortgage of residential property bearing no.55C(Third Floor) Block J-9, Rajouri Garden, New Delhi-110027, Property in the name of Mr. Jagjit singh and Amardeep Singh. (The properties are under symbolic possession of the bank) 		
Reserve price	Lot 1: Rs. 377.78 Lakhs (Rupees Three Hundred Seventy Seven Lakhs and Seventy Eight Thousand Only)		

Lot 2: Rs. 261.62 Lakhs (Rupees Two Hundred Sixty One Lakhs and Sixty Two Thousand Only) Lot 3: Rs. 261.62 Lakhs (Rupees Two Hundred Sixty One Lakhs and Sixty Two Thousand Only) Lot 4: Rs. 261.62 Lakhs (Rupees Two Hundred Sixty One Lakhs and Sixty Two Thousand Only) (All Reserve Price is inclusive of 1% TDS amount as per Section 194IA of IT Act) 20.04.2020 from 11.00 a.m to 1.00 p.m with auto extension of five minutes till sale is completed. Date & Time of auction Lot 1: Rs. 37.78 Lakhs. Lot 2: Rs. 26.16 Lakhs. Lot 3: Rs. 26.16 Lakhs EMD Lot 4: Rs 26.16 Lakhs Bid multiplier Rs.1.00 Lakh Auto extension time 5 Mins Known Encumbrance if any

None Inspection Date & Time During Business Hours with prior appointment from bank EMD start date 16.03.2020 onwards

18.04.2020 (till 5.00 pm)

* This notice is also to be treated as 30 days notice under rule-8(6) of the Securities Interest (Enforcement) rules-2002 for the borrower/guarantors/mortgagors. For terms and conditions please visit: https://www.publishtenders.gov.in https://auctions.magicbricks.com https://www.iob.in/e-Auctions.aspx

For further details regarding inspection of property / e-auction, the intending bidders may contact the Branch Manager, Indian Overseas Bank, Rajouri Garden, F-105, Bali Nagar, New Delhi-110015 during office hours, or contact Shri Christhuvaraj M (Chief Manager) Mob No: 9884036103; Shri Rajendra Kumar Morwal: 9818344514, 011-25105131 or, the Bank's approved service provider M/s Magicbricks reality services Ltd, auction helpline No 9212346000, Mr Mohit Sharma: 9837778407, auction helpline email: auction@magicbricks.com and mohit.sharma5@magicbricks.com.

Date: 13.03.2020 Place: New Delhi Authorised Officer, Indian Overseas Bank है। उन्होंने कहा- कोरोना

वायरस महामारी से चीन से

कलपर्जों की बाधित आपर्ति

भी चिंता का कारण है।

इससे कंपनियों की उत्पादन

योजनाओं पर असर पड़

सकता है। हालांकि कोरोना

वायरस महामारी के लिए

सरकार का 'फोर्स मैजेयर'

की अधिसचना जारी करना

और सभी तरह के सीमा

शुल्क केंद्रों पर आयात के

लिए चौबीसों घंटे की मंजूरी

सविधा शुरू करना एक

स्वागत योग्य कदम है

पटेल ने कहा कि दिल्ली में 24

कैरट सोने का हाजिर भाव 1,000

रुपए से अधिक के नुकसान पर

चल रहा था। पटेल ने कहा कि

रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के बाद

रुपया 23 पैसे की बढ़त में था।

वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय

बाजार में सोना बढ़त के साथ

1,584 डॉलर प्रति औंस पर था।

वहीं चांदी गिरावट के साथ 15.65

डॉलर प्रति औंस पर रही।

बाजार में भारी उतार-चढाव: सूचकांक 1,325 अंक ऊपर

मुंबई, 13 मार्च (भाषा)

शेयर बाजार निवेशकों के लिए शुक्रवार को शुरुआती 15 मिनट भारी उतार-चढ़ाव भरे रहे। शुरुआती कारोबार में बीएसई सचकांक और एनएसई निफ्टी दोनों दस फीसद से अधिक टूट गए। इस उतार-चढ़ाव के बाद अंत में बंबर्ड शेयर बाजार का सुचकांक 1,325 अंक चढ़कर बंद हुआ। बाजार में गिरावट इतनी जोरदार थी कि सुबह 9:20 बजे के आसपास बीएसई और एनएसई दोनों का कारोबार 45 मिनट के लिए बंद करना पड़ा। 12 साल में यह पहला मौका है, जबकि शेयर बाजारों में कारोबार बीच में रोकना पद्म।

कोरोना वायरस महामारी की वजह से शुक्रवार को दुनियाभर के बाजारों में अफरा-तफरी रही। इसी रुख के अनुरूप यहां भी शुरुआती कारोबार में बाजारों में भारी गिरावट आई। बीएसई सुचकांक दिन में कारोबार के दौरान एक समय 29,388.97 अंक पर आ गया। लेकिन बाद में निचले स्तर पर चली लिवाली के सिलसिले से इसमें 5,380 अंक का जोरदार सुधार दर्ज हुआ। अंत में सुचकांक 1,325.34 अंक या 4.04 फीसद की बढ़त के साथ 34,103,48 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी 365.05 अंक या 3.81 फीसद की बढ़त के साथ 9,955.20 अंक

पर बंद हुआ।

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 13 मार्च।

शुक्रवार को देश का शेयर

सीतारमण ने शेयर बाजारों में जारी

भारी उथल-पथल को लेकर कहा

कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक

उन्होंने कहा कि सरकार रिजर्व बैंक

के साथ मिलकर कोरोना वायरस

संक्रमण को लेकर बाजार में मचे

एलसीआरडी-नई दिल्ली डिविजन

एक्सटेंशन, करनाल, हरियाणा।

एक्सटेंशन, करनाल, हरियाणा।

पम्प सेट आदि का दृष्टिबन्धक।

दक्षिण : 43'-0", बन्द गली।

आकृष्य किया जाता है।

के प्रति पूर्वाग्रह-रहित है।

आज दिनांक 12 मार्च, 2020

www.readwhere.com

फेडरल टॉवर, 2/2, प्रथम तल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008

फोन नं. 011-40733978, 79, 80, 82

स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं।

अर्थव्यवस्था में नरमी से वाहनों की बिक्री 19.08 फीसद गिरी

नई दिल्ली, 13 मार्च (भाषा)।

नई दिल्ली, 13 मार्च (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को

सोना 1,097 रुपए टूट कर 42,600

रुपए प्रति दस ग्राम पर आ गया।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के

अनसार रुपए में बढ़त के बीच

निवेशकों ने अन्य संपत्तियों की ओर

रुख किया है, जिससे सोने में

गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में

शेयर बाजार भी दस फीसद से

घमासान की निगरानी कर रही है।

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड

(सेबी) ने शुक्रवार को कहा कि

के लिए तैयार है। सेबी ने एक

बयान में कहा कि कोरोना वायरस

महामारी से जुड़ी चिंताओं के चलते

पिछले कुछ दिनों में अन्य वैश्विक

बाजारों की तरह ही भारतीय शेयर

बाजारों में गिरावट का रुख देखा

फेडरल बैंक

आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार

इस बीच बाजार नियामक

सरकार और रिजर्व बैंक

की शेयर बाजार पर नजर

बाजार खुलते ही मंदी की मार से शेयर बाजारों में भारी उथल-पृथल

बुरी तरह ड्रालस गया तो सरकार को से निपटने के लिए वह किसी भी

चिंता हुईँ। वित्त मंत्री निर्मला तरह की अनिवार्य कार्रवाई करने

सरफेसी अधिनियम, 2002 की घारा 13(2) (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के

मैसर्स जागृति पील्ट्री फार्म एक साझेदारी फर्म जिसका पंजीकृत कार्यालय म.नं. 382-ची, ओल्ड

कोटी, सेक्टर-13, एक्सटेंशन, करनाल, हरियाणा इसके साझेदार (अ) श्री आतम प्रकाश पुत्र श्री

2. श्री आतम प्रकाश पुत्र श्री आत्मा राम निवासी म.नं. 382-बी, ओल्ड कोटी, सेक्टर-13,

3. श्री अरुण चौथरी पुत्र श्री आतम प्रकाश निवासी म.नं. 382-बी, ओल्ड कोटी, सेक्टर-13,

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) एवं प्रतिभृति हित अधिनियम,

आप में से प्रथम प्रमुख कर्जदार तथा डितीय एवं तृतीय जमानती/सह-दायित्वधारी के रूप में अन्य

बातों के साथ-साथ मूल रूप से 29.10.2015 को रु. 65 लाख की सीसी लिमिट तथा 29.10.2015

को रु. ९९ लाख की सावधि लिमिट फेडरल बैंक लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत

पंजीकत कम्पनी जिसका पंजीकत कार्यालय अलवाये (इसके पश्चात बैंक के रूप में सन्दर्भित)

से इसकी शाखा करनाल से पूँबीगत आवश्यकताओं के लिए ग्रहण की थी । उसकी वसूली के

बैंक डारा ग्रहण की गयी उपर्युक्त साख सुविधाओं की प्रतिभृति के प्रति आप सभी ने निम्नलिखित

दृष्टिबन्धक चल सम्पत्तियों का विवारण

सीसी लिमिट हेतु : फीइस के स्टॉक, मेडिसिन सैट 25% मार्जिन, ग्राम कुंजपूरा, मुगल माजरा

टीएल लिमिट हेतु : बैंक बित्त से सुनित संयन्त्र एवं मशीनरी, केजेज, फीड ट्रॉली, जेनरेटर सेट,

बैंक से ग्रहण की गयी उपर्युक्त साख सुविधाओं की प्रतिभृति के प्रति श्री अरुग चौधरी ने

31.10.2015 को निम्नलिखित अचल सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में बैंक बन्धक द्वारा बैंक के पक्ष में

प्रतिभृति हित सृजित किया था और बाद में सृजित कथित बंधक को समय-समय पर विस्तारित

किया गया। इस प्रकार का अन्तिम विस्तार 19.04.2018 को किया गया। कथित बंधक ग्रहण की

बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण

मद 1 : एम.सी. सं. 382-बी, सेक्टर 13 एक्सटेंशन, हुडा अर्बन एस्टेट, करनाल, हरियाणा राज्य

में स्थित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग, जिसका क्षेत्रफल 264 वर्ग गज तथा समस्त वर्तमान भवन

तथा/ अथवा निर्मित किये जाने वाले भवन, सीमाएँ : पूर्व : 45' -6" + 8'-3", प्रवीण कुमार का

मकान, पश्चिम : 11' -5" + 44'-9" संजीव कुमार का मकान, उत्तर : 41'-11" बन्द गली तथा

सूचना में उल्लिखित उपर्युक्त दृष्टिबन्शक आस्तियाँ तथा मद (1) पर उल्लिखित बंधक सम्पत्तियाँ

इसके पश्चात 'प्रतिभूत आस्तियाँ' सन्दर्भित होगी। अधोहस्ताश्वरी फेडरल बैंक लिमिटेड का

अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते आपको सूचित करता है कि नकद साख खाता सं.

16495500000032 में रु. 93,88,634.00 (रुपये तिरानचे लाख अट्टासी हजार ङ: सी चौतीस

मात्र) 03.01.2020 को तथा सार्वाध ऋण खाता सं. 16496600000071 में रु. 55,52,304.38

(रुपये पचपन लाख बाबन हजार तीन सी चार एवं अड़तीस पैसे मात्र) अर्थात कुल राशि रु.

1,49,40,938.38 (एक करोड़ उनचास लाख चालीस हजार नौ सौ अड़तीस एवं अड़तीस पैसे

मात्र) आप संयुक्त एवं एकमात्र से बैंक की करनाल शाखा में आपके ऋण खातों में बकाया है।

पुनर्भुगतान में आपकी चूक को देखते हुए भा.रि.वें. के दिशा निर्देशों के अनुसार आपकी खाता/ओ

को गैर-प्रचालन परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आप सभी सह-दायित्वधारी/सह-

कर्जदार तथा विधिक उत्तराधिकारी की क्षमता में जुड़े लोग बैंक के बकाया भूगतान करने के

उत्तरदायी हैं। एतडारा सीसी लिमिट 16495500000082 में मासिक रेस्ट्स एवं 01.01.2020 से

11% वर्षिक की दर से भावी ब्यान तथा टीएल 16496600000071 में मासिक रेस्ट्स एवं

01.02.2020 से 10.50% वार्षिक की दर से भावी ब्याज एवं 2% दण्डात्मक ब्याज सहित राशि

अदा करने को कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत

आप तथा ऊपर वर्णित प्रतिभृत परिसंपत्तियों के विरुद्ध पट्टा, एसाइ-मेंट अथवा बिक्री डारा उसके

अंतरण अथवा आपको आगे कोई सूचना दिए बिना बकाए की वसूली के लिए प्रतिभूत परिसंपत्तियों

के प्रबंधन के अधिग्रहण के अधिकार सहित उसका अधिग्रहण करने जैसी सभी अधिकारों का

प्रयोग किया जाएगा। सुचित किया जाता है कि बैंक की लिखित अनुमति के बिना आप नीचे वर्णित

प्रतिभृत परिसम्पत्तियों की विक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से अंतरण नहीं कर सकते हैं। अपनी देयता

को निष्पादित नहीं करने तथा बैंक द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई शुरू किए जाने की स्थिति में आप

उसके आगे भी उस सिलसिले में बहन किए गए सभी लागत, चार्जेज तथा खर्चे का बैंक को भूगतान

करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभृत परिसम्पत्तियों की विक्री राशि से संपूर्ण देयता पूरी नहीं

होती है तो आगे बिना किसी सुचना बैंक शेष राशि की वसली के लिए व्यक्तिगत रूप से आपके

विरुद्ध कार्रवाई करेगा। आपका ध्यान प्रतिभृति परिसम्पत्तियों (प्रतिभृत सम्पत्तियों) को विमोचित

करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के प्रति

यह सूचना 24 फरवरी, 2020 को जारी की गई थी तथा वह आपको सर्व की गई लेकिन संभवतः

आपने उसे प्राप्त नहीं किया जिस कारण से सरफेसी अधिनियम के अनुसार यह प्रकाशन आवश्यक

हो गया है। यह सूचना बकाए की वसुली के लिए बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों तथा उपचारों

कृते फेडरल बैंक लिमिटेड, सहायक उपाध्यक्ष

(सरफेंसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सम्पत्तियों के परिप्रेक्ष्य में दृष्टिबन्धक के माध्यम से बैंक के पक्ष में प्रतिभृति हित सुबित किया।

लिए आपने बैंक प्रतिभृति अनुबन्ध, डीपीएन आदि के पक्ष में क्रियान्वित की थी।

साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत सूचना.

आत्मा राम एवं (ब) श्री अरुण चौधरी पुत्र श्री आतम प्रकाश द्वारा प्रतिनिधानित।

2002 के प्रवर्तन (इसके पश्चात अधिनियम सन्दर्भित) के तह सूचना

रोड, करनाल-132001, हरियाणा में भण्डारित का दृष्टिबन्धक।

गयी कथित साख सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में जारी है।

गया है।

देश में विभिन्न श्रेणियों में वाहनों की थोक बिक्री में फरवरी में 19.08 फीसद की गिरावट रही। इसकी प्रमुख बजह आर्थिक नरमी से कमजोर पड़ती मांग और वाहन उत्पादन को बीएस-6 के अनुरूप बनाने की वजह से बीएस-4 वाहनों का उत्पादन घटना है।

वाहन विनिर्माता कंपनियों के अखिल भारतीय संगठन 'सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स' (सियाम) ने शुक्रवार को फरवरी के वाहन बिक्री आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार फरवरी में विभिन्न श्रेणियों में कुल 16,46,332 वाहन बिके जबकि फरवरी 2019 में यह आंकड़ा 20,34,597 बाहन था।

सियाम के अध्यक्ष राजन वढेरा ने एक बयान में कहा- कंपनियों की थोक बिक्री में गिरावट की प्रमुख वजह आर्थिक नरमी और बीएस-4 वाहनों का उत्पादन घटना है। 'वाहन' पोर्टल पर मौजूद पंजीकृत वाहनों की संख्या के आधार पर बीएस-4 वाहनों की अंतिम समय की खरीद में कुछ बढ़ोतरी हो सकती

रपट के अनुसार समीक्षावधि में यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री 7.61

फीसद गिरकर 2.5 1.5 16 वाहन रही जो फरवरी 2019 में 2,72,243 वाहन थी।

कारों की बिक्री B.77 फीसद घटकर 1,56,285 वाहन रही जो पिछले साल फरवरी में 1,71,307 वाहन थी।

'फोर्स मैजेयर' अनबंधों में शामिल किया जाने वाला एक कानुनी प्रावधान है। यह प्रावधान संबंधित पक्षों को उनके नियंत्रण से बाहर की कोई परिस्थिति बनने की स्थिति में अनुबंध की कानूनी बाध्यताओं से राहत प्रदान करता है।

विमानन कंपनियां टिकट रह करने का शुल्क माफ करने पर विचार करें: नियामक

नई दिल्ली,13 मार्च (भाषा)। टिकट रद्द करने और यात्रा तारीख नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कोरोनावायरस महामारी को देखते अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों से

में बदलाव को लेकर लगने वाले शुल्क को माफ करने या अन्य कोई प्रोत्साहन देने पर विचार करने को कहा है।

डीसीबी बैंक लिपिटेड

७/55, उस तल, देशबन्ध गुप्ता रोड करोल बाग,

DCB BANK

अवल सपति के लिये कष्जा सुबना [नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार]

जैसा कि, निवीय परिसम्परियों के प्रतिभूतिकरण एनं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हिरा प्रनर्वन [अधिनियम् 2002 (2002 के 54)] के अंतर्गत डीसीबी बैंक लिपिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित् (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीहरताक्षरी ने पांग सूचना तिथि 07.03.2019 जारी कर उद्याधारक एसह- उद्याधारक एसह- आवेदकः मो. फारूक आजम तथा मुसरत जहाँ को सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि रु. 32,63,974/ - (रुपए अतीस लाख रिाइेस्ड इजार नी सी चीहत्तर मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। क्टमधारक, इ.स.राशि को बापस लौटाने में बिफल हो. अतः एक्टब्रारा क्टमधारक, तथा आप जनता को समित किया जाता है कि आज, 9 मार्च, 2020 को अधोहरताक्षरी ने उकर नियमावली के नियम 3 के साथ पठिता अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीहरताक्षरी ने यहां नीचे

विशेष रूप से ऋणषारूों तथा आप जनता को एतटहारा सर्र्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 5.3.2020 को रू. 35,36,332.54/-(रुपए पैतीस लाख छियासी इजार वीन सौ बयासी एवं पैसे चौवन मात्र) तथा ठस पर ब्याज की राशि के लिये डीसीबी बैंक लिफ्टिड के चार्ज के अधीन होगा। आफ्का ध्यान उका अधिनयम्, 2002 की धारा 13(3) के प्रति अङ्ख की जाती है जिसके अनुसार यदि आप क्षिकी का सुचना के प्रकाशन की विधि से पूर्व लागत, चार्जेज तथा ठाचें के साथ सभी बकाये भुगतान कर देते हैं तो प्रतिभूत परिसम्पत्ति वियोचित की जा सकती है।

अवल समिति का विवरण

प्लॉट नं. एल-३५, फान्ट साहड फ्लैट, एसएफ, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001

स्थानः दिल्ली डीसीमी मैंक लिपिटेड

एसबीआई प्लोबल फैक्टर्स लिपिटेड 6ठी पणितः, द मेट्रोमोतितन बित्डिण, बान्द्रा-कृतां कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (प्.) पुष्वई-400051. दूरभाम : 30440300/ 7738362525/ \$\$00559395. फै क्स vp.debt@sbiglobal.in/debt_id@sbiglobal.in

से बैंकों/एआस्सी/एनबीएफसी/एफआई से संविदाएँ आमन्त्रित करते हैं

बैंक डारा समय-समय पर प्रदर्शित होने वाली ऐसी वित्तीय आस्तियों के क्रय हेत् बोली लगाने में इच्छक बैंक/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई, यदि पहले से क्रियान्वित नहीं है तो बैंक के साथ गैर-प्रकटन समझौते के क्रियान्ययन के पश्चात बोली लगाने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बैंक के साथ गैर-प्रकटन अनुबन्ध के क्रियान्वयन तथा अन्य पृष्ठताष्ठ, यदि कोई हो, के लिए ऐसे इच्छुक चैक/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई ई-मेल आईडी vp.debt@sbiglobal.in/debt_id @sbiglobal.in पर सम्पर्क कर सकते हैं। एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड कुल बकाया रु. 55.44 करोड सहित (5) वित्तीय आस्तियों से निर्मित अपने गैर-निष्पादन आस्तियों (एनपीए) वे प्रस्ताबित बिक्री हेत् बैंक/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई से रुचि की अभिव्यक्ति आमन्त्रित करता है। इच्छक सम्भावित संविदाकारों से ''रुचि की अभिव्यक्ति'' के माध्यम से ई-नीलामी में भाग लेने की अपनी इच्छा सुचित करने का निवेदन है। कृपया कम्पनी की वेबसाइट https://www.sbiglobal.in देखें। अधिक विवरण के लिए Link news & events/e-

तिथि : 14.03.2020

एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड

सोना 1,097 रुपए ट्रटा

अधिक टूटने के बाद अंत में अच्छी

बढ़त के साथ बंद हए। इससे

पिछले सत्र में सोना 43.697 रुपए

प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था।

सोने की तर्ज पर चांदी भी 1,574

रुपए के नकसान के साथ 44,130

रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।

गुरुवार को चांदी 45,704 रुपए

वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के

प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।



सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की जिसका नामः भूमि, पुत्रीः श्री दिनेश कुमार, पताः मकान नं. डी-213, जेजे कैम्प टिगरी, नई दिल्ली, उम्रः 09 साल, कदः 3', चेहराः गोल, रंगः गोरा, पहनावाः गुलाबी रंग का स्वेटर एवं हरे रंग का पजामा पहने है, जो अपहृत है। इस बाबत FIR No. 22/16 u/s 363 IPC, दिनांक 06.01.2016, थानाः नेब

स्थानीय पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी इस लापता / अपहृत लड़की के बारे में कुछ मालूम नहीं हो पाया है। अगर किसी को भी इस लापता / अपहृत लड़की के बारे में जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित

वेबसाईटः http://cbi.nic.in फैक्स: 011-24368639

थाना प्रमुख पुलिस स्टेशन, नेब सराय, नई दिल्ली फोनः 011-29551326, 8750870835

ऋण वसुली अधिकरण-III, दिल्ली दिल्ली 4था तल, जीवनतास भवन, पार्लियापेट स्ट्रीट, पटेल चौक, गई दिल्ली-110001

बैंक तथा वितीय सरमानों के बकाए ख्र्मों को वासूती अधिनियम, 1993 के साम महित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्की उद्भोषणा

एकिसस बौक प्रमाणपत्र थास्क बताप सौरभ वर्षा एवं अत्य ... प्रमाणपत्र देवदार सीडी ने. 1: सौरभ वर्षा, एल 179, सरोगिनी नगर, भूतल निकट आखीआई कार्यालय, नई दिल्ली 110023

साब ही : प्रैण्ड मैबेलियन सेक्टर %. एक्सप्रेसको निकट एपिटो स्कृत, नोएडा 201305 सीडी है. 2: कृतिका निगम, एस 179, सरोजिनी नगर, भूतस विकट आरबीआई कार्यासय, नई दिस्सी-110023 सीडी तं. ३: नयपुरिया बिल्डकॉन प्राह्वीर लिपिटेड. द्वितीय तल. 16 शकर विज्ञार. विकास पागं. दिल्ली- 92

सीडी सं. 4 : अशोक गोयल, जयपुरिया बिलडकॉन प्राह्मेट लिपिटेड के निदेशक, फ्लैट सं. 1301, स्काइटेक पगथ

सीडी सं. ५ : बन्दना गोयल अशोक, जयपूरिया बिल्डकॉन प्राह्न्बेट लिपिटेड के निदेशक, फ्लैट स. 1301, स्काइटेक

नैसा कि आप प्रमाणपत्र के अनुसार 10% प्रति वर्ष साधारण दर पर देव ब्यान, आकरियक व्यव के साथ पीठासीन अधिकारी, ख्रम असूनी अधिकरण-III, दिल्ली द्वारा 2015/डीआरटी-III के ओ.ए. स. 528 में तैयार की गई रिकवरी प्रमागमत्र के अनुसार रु. 21.90.517/- (रुपए इक्कीस लाख नब्बे) हजार मॉब सी सजह मात्र) की राष्ट्री का भुगतान करने में विफल रहे हैं जो आप पर बकाया हो गया है। तथा जैसा कि अधीहरताक्षरी ने उक्त प्रपाग पत्र

एतदुद्वारा सुवित किया जाता है कि स्थान आदेश को अनुपरिष्मति मे 10,04,2020 को 3,00 बजे अम. से 4,00 बागे अप. के बीच (यदि गरूरों हो. समाप्ति से पूर्व अतिष 5 पिनट में बोलों के पापले में स्वतः विस्तार उपबंध के साम) सेना प्रदाना मैससं सी-1 द्रिष्टिया प्रा.ति.. उद्योग विहार, फेज 2, भवन स. 301, गुरुप्राप, हरियांगा (भारत) दूरभाष : 191 -7291981124/25/26 सम्पर्क व्यक्ति श्री विनोद बौहान पोबाहरा न. 9813887931 ई. पेत : SUDport@bankeauctions.com वेबसहर : https://www.bankeauctions.com के पाध्यप से सम्पनि की

यह बिक्की नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की समित की होगी तथा उक्त समित से जुड़ी देयताए एव दावे. जो अब तक सुनिश्चित हैं. वे प्रत्येक ताँट के समक्ष अनुसूची में निर्दिग्ट हैं।

परीक्ष रूप से. वे बेबों जा रही सपित को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हिन अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम. 1961 की द्वितीय अनुसूखी में निर्दिग्ट शर्ती तथा उसके अनगंत निर्मित नियमों तथा आगे की निय्नतिष्ठित शर्तों के अधीन होगी।

सतान अनुसुबी में निर्दिष्ट विवासा अधीहरनाक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है. लेकिन, इस उद्गोषमा में किसी पत्नती. त्रृटि अमवा खापी के लिए अधीहरलाक्षरी उलादायी नहीं होंगे।

प्रम्मिन सख्या फ्लैट स. बी. 1101. 11वीं पनित. ब्लॉक बी. गयपुरिया अपारंपेंट, सेक्टर-1.

आरक्षित पूल्य/ईएपडी | रु. 30.36.000/ (रुपये तीस ताख छनीस हगार पात्र) ग.ध.रा. रु. ३.०३.६००/- (रुपये तीन लाख तीन हजार छः

 इंएमडो का भुगतान 08.04.2020 तक रिकवरी अधिकारी∙1, ऋग वस्ती अधिकरण∙111, दिल्ली के पक्ष में देय. डोडी/ में आडेर द्वारा किया नायेगा। उसके बाद नमा की गई ईप्पडी मर ई-नीलामी में भागीदारों के लिए द्वाबार

 बोलों आवेदन के साम पैन कार्ड की प्रति, तिशास के प्रपण तथा पहचान के प्रपाण, हं पेत आहंडी, पोबाहंत न. तमा यदि वे अपनी और से या अपने प्रधान की और से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जया किया जायेगा।बाद के पापले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यमा बोली निरस्त कर दी जायेगी तमा कमनी के पापले में कपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारिल प्रस्ताव को प्रति अभवा कपनी को प्रतिनिधिन्त/ अटानों को पृष्टि करने वाले अन्य कोई दरलावेग तथा उस गया को रसीट/ काउटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएव बींक के पास ई-पेल या अन्य रूप से उक्त तिमि तक पहुंच गाए तमा उसको हार्ड कॉमी. वसूनी अधिकारी I , डीआसी-III , दिल्ली के

 सफला बोलींदाना को अगले बैक कार्य दिवास के 3,00 बने अप. तक ऊपर पैरा पें विमेत विवासों के अनुसार उक्त छाता में इंप्रमुद्धी समायोगित करने के बाद अपनी अतिप बोली राशि के 25% का भगतान करना होगा। 7. क्रेना को समित को बिक्रों को विभि से 15वें दिन या उससे मूर्व तमा यह 15वा दिन अवकाश या रिवार होता. है तो 15वें दिन के बाद प्रमप बैंक कार्य दिवस में ऊपर मैरा 4 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अतिम बोली राशि के रोष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त केता को रु. 1000/ - तक 2% कौ दर से तमा रु. 1000/-को उक्त राशि के अधिक पर 1% को दर से रिगस्ट्रार, डीआस्टी-111, दिल्ली के पक्ष में डीडी के मध्यम से रिकटारी अधिकारी∙ा, डीआरटी∙ाा, दिल्ली के पास पाउडेग शुक्त का भी भूगतान करना होगा।

 निर्धारित अवधि के पीतर पुगतान में जूक करने पर विक्रों की नई उद्बोषणा गारी करने के बाद समित की फिर से बिक्कों को नाएगी। बिक्कों के खर्जे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधीहरनाक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो नमा को गई राशि सरकार के पक्ष में जब्न कर तो जाएगी तथा जुक करने वाले केता उस समित अभवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्कों को जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से विवत हो जाएगे। 10. समिन की बिक्की ' गैसा है जहां है तथा जो भी वहां है ' आधार पर की जा रही है।

11. अधोहरताक्षरी को किसी या सभी बोलों को स्वीकार करने अभवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अभवा बिन। कोई कारण बनाए किसी भी समय नीलामी को स्मिगन करने का अधिकार प्राप्त है। 12. इस समय अधोहरताक्षरी को जानकारी में सम्मनि मर राजस्व/अधिभारों का कोई विवारण उपलब्ध नही है

तीकिन. संपादित बोलीदाता को सलाइ दो जातों है कि इंएमडी जमा करने से मुखं अपने खब्द के हिन में बिजलौ∕पानौ∕पाकान कर के बिलों के बकाये अथवा किसी अन्य अधिपारों के बिषय में अपना ख्वय का हुय्

नो तदनुसार. आरसी की सुनवाई की निधारित/परवर्ती तिभि को वापस तीटाई नायेगी। 14. सोएव बैंक को इसमें दिये गये विवासों को मुस्टि करने तथा सत्यता को गाँव करने के लिए निर्देशित किया गाता है।

वसुली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली

गुमशुदा/अपहृत की तलाश



दिनांक 05.01.2016 से अपने घर से लापता / सराय, नई दिल्ली में दर्ज है।

पर सुचित करें।

ई−मेल: cic@cbi.gov.in DP/24/SD/2020

> आर.सी सं 937/2013 बिकी की उद्योषणा

पापले का गीर्धक

साब ही : 507. एसटीएन फ्लोर. केएप ट्रेड टॉवर. सेक्टर 14. रैडिसन ब्लू. कौशाप्त्री. गागियाबाट । साब ही : जयपुरिया बिल्डकॉन प्राहवेट लिपिटेड, फ्लैट स. 1302, जो. एव. 7, सेक्टर 3, स्काई टेक पगथ सोसाइटी.

सोसहरी, सेक्टर 4, वीशाली गागियाबाद मगथ सोसहरो. सेक्टर ४. वैशाली गागियाबाट

को सनुष्टि के लिए नीवे अनुसुवित सम्पति को बिक्रो का आदेश दिया है।

अधिक विवारण के लिए सम्पर्क करें : बैंक अधिकारी श्री अभिनव कुमार मण्डे. मोबाहल न. 9911906302.

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति विक्रों के सित्तसिते में कोई कर्तव्य निवंहन का दायिवा हो. प्रत्यक्ष या

सम्पत्तियों. आरक्षित मृत्य तथा इंग्एमडो का व्यवरण इस प्रकार है:

गोएच-६. कॉसिंग. डुडाहेड्।. गागियाबाट सम्पत्ति को बिक्को आरक्षित मृत्य से कम में नहीं को जायेगी।

 कह राशि गिसके द्वारा बोली अद्वाई गाएगी रु. 50,000/ (रु. प्रवास हगार पात्र) है। यदि बोली राशि अभवा बोलीटाता से सबधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्रो पर लगाया गाएगा। 3. उव्हानम् बोलीदाला को किसी भी लॉर का केला भोषित किया गाएगा। यदि प्रस्तावित मृतय समय रूप से अमर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहरताक्षरी खोच्छा से उच्चतम बोली को खोकार/ अखोकार

सभावित बोलीटाना 03.04.2020 को 11 बागे पूर्वा. से 4 बागे अप. तक सम्पिन का निरीक्षण कर सकते हैं।

13. असफल बोलीटानVओं को निर्देश दिया जाना है कि अपने इंएमडी के रिफड के लिये आरसी को सनवाई की आगामी निधारित निभि या उससे पूर्व डीआरटी III के रिनरही में फरवान के प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें

मेरे हाम से तमा मुहर लगाकर 6 फरवरी. 2020 को दी गई।

प्राधिकत अधिकारी

SBI Global Factors Ltd.

एसबीआई ग्लोबल फैक्से लिमिटेड कितीय आस्त्रियों की बिक्री हेतू ई-नीलामी के माध्यम

auction पर क्लिक करें।

RELAXO FOOTWEARS LIMITED CIN No:- L74899DL1984PLC019097 RELAXO Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10,

Manglam Place, District Centre, Sector -3, Rohini, Delhi - 110085 Ph: 91-11-46800600, 46800700; Fax No: 91-11-46800692 E-mail: rfl@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com NOTICE

Notice is hereby given that the under mentioned share certificates pertaining to shares of the Company have been reported lost and request(s) for issue of duplicate Certificates in lieu thereof have been received by the Company.

FOLIO NO.	NAME OF HOLDER	CERT. NO(S).	DISTINCTIVE NOS.	NO. OF SHARES	OF SHARES (in ₹)	
RNE0000298	BABU LAL GUPTA	100033	58086-60085	2000	1.00	
	C 10 C C C	18 10 10 1	S	10 0	1 17 1	

Any person having any claim / objection in respect of the above requests should lodge such claim / objection with Kfin Technologies Private Limited, Company's Registrar and Share Transfer Agent at its office situated at Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad-500032 or with the Company at its registered office or corporate office at Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector- 3, Rohini, Delhi - 110 085 within 15 days of the publication of this notice, failing which the Company will consider to give effect to the above requests.

For Relaxo Footwears Limited

Place: New Delhi Date: 13" March, 2020

Vikas Kumar Tak Company Secretary

PUBLIC NOTICE NOTICE is hereby given that our Client is investigating the title of the owner to

the Property (as set out in the Schedule below). All persons having any encumbrances, claims or rights of any nature whatsoever against or in respect of the Property or any part thereof including by way of legal title, ownership rights, tenancy, inheritance, share, partition, mortgage, lien, sale, exchange, gift, lease, sub-lease, license, development rights, charge, maintenance, easement, possession, possession of original title deeds, occupation and/or beneficial rights under any trust, right of prescription or pre-emption or under any agreement, arrangement or disposition or any decree, order or award passed by any Court or authority howsoever, or otherwise claiming any other rights whatsoever, are hereby requested to intimate the same in writing along with all supporting papers, writings or documents at our office at Shardul Amarchand Mangaldas & Co., Express Towers, 23rd Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021, India within 7 (Seven) days from the date of publication of this notice, failing which such claim, right or encumbrances and the claims, rights or encumbrances, if any, of such person, entity, association, firm etc. shall be treated as waived or abandoned.

SCHEDULE (Description Of The Property)

Residential build up area 4,458 sq. ft. spread across basement, ground floor, and area at stilts with proportionate land rights of a residential plot no. F-4/10 situate at F-4/10, Vasant Vihar, New Delhi.

Dated this 14th day of March, 2020.

Tel: 022 49335555

Kind Attn: Mr Tarun Rao

वर्ग फीट (लगभग) है।

तिथि: 12.3.2020

Shardul Amarchand Mangaldas & Co. Express Towers, 23rd Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021

Email: tarun.rao@AMSShardul.com | Tel: 022 49335569 द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड चल कायालय (उत्तर), प्लाट त. 132-134, सक्टर 44

पुरुर्गाँव (हरियाणा) भारत, GSTIN: 06AAACT6167G1ZB

टी: -91(0):0124-4715300, एफ: -91(0):0124-4715300,

f: fapmd.del@jkbmail.com W: www.jkbank.net



बाधित परिसम्पत्ति पोर्टफोलिओ प्रबंध विभाग (कब्जा सूबगा) (अनल सम्पति के लिये) [देखें नियम ३(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत द जम्मू एंड कश्मीर मैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम ९ के साथ पटित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी के पूर्वाधिकारी ने मांग सूचना तिथि 4.6.2019 जारी कर ऋणधारकों एवं गारन्टरों, ऋणधारकों श्रीमती नीरज गर्ग, पत्नी श्री संजीव कुमार, निवासीः एफ-1 सर्वोदय अपार्टमेन्ट-राधेश्याम पार्क जी.टी. रोड साहिबाबाद, गानियाबाद एवं श्री संजीव कुमार, पुत्र श्री महेश प्रवेश कुमार (ऋणधारक सह-मार्टरीजर) निवासीः एफ-1 सर्वोदय अपार्टमेन्ट-राधेश्याम पार्क जी.टी. रोड साहिबाबाद गाजियाबाद एवं गारन्टरों नं. 1, श्री प्रवीण कुमार सिंघल, पुत्र श्री अशोक कुमार सिंघल, निवासी एच-1, सर्वोदय अपार्टमेन्ट मैन जी.टी. रोड, साहिबाबाद, गाजियाबाद 201005, गारन्टर नं.-2. श्री गिरीश गोयल, पुत्र श्री एम.सी. गोयल, निवासी: 1051, रोहताश नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 को सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि 31.05.2019 को रु. 1024719/- (रुपये दस लाख चौबीस हजार सात सौ उन्नीस मात्र) के साथ आगे का ब्याज, लागत, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्डारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया बाता है कि आज, 12 मार्च, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पिटत अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्ना कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम बनता को एतद्डारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.05.2019 को रु. 1024719/- (रुपये दस लाख चौबीस हजार सात सौ उन्नीस मात्र) के साथ आगे का ब्यान, लागत, चार्जेन आदि के लिये द जम्मु एंड कश्मीर बैंक लि. (बीओ: नवीन शाहदरा) के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ

में अधिनियम की धारा 13 की वप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लोर, सर्वोदय अपार्टमेन्ट्स राधे श्याम पार्क गाजियाबाद (उ.प्र.) जिसका कवर्ड एरिया 600

श्रीमती नीरब गर्ग तथा श्री संजीब गर्ग के नाम में प्लॉट नं. 3 में स्थित प्लैट नं. एफ-1, जी

प्राधिकृत अधिकारी द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. स्थानः गाजियाबाद, उ.प्र.

"एम्पैथी इन्फ्रा एण्ड इंजीनियरिंग प्रा.लि." के हितशारकों (लेनदारों सहित) को (कॉपीरेट ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया)

सार्वजनिक सूबना यह सुचना पूर्व के अन्तरिप संपाधान प्रोफेशनल, श्री अपित जैन द्वारा रापाचार-पत्र (जनसत्ता-हिन्दी

तथा फाइनेंशियल एक्सप्रेस-अंग्रेजी } में 23.12.2019 को की गयी हालिया सार्वजनिक घोषणा वे पैरार्स एप्पैथी इन्क्रा एण्ड इंजीनियरिंग प्रा.शि. के हितथारकों से यह ध्यान देने का निवेदन है कि पाननीय एनसीएलाटी चण्डीगढ पीठ ने अपने आदेश दिनांक 24.02.2020 के माध्यम से अधीहरताक्षरी को पूर्व के अन्तरिप संपाधान प्रोफेशनल, श्री अपित जैन के स्थान पर अन्तरिप संपाधान प्रोफेशनल नियक्ष

अतः हितभारकों से कॉर्पेरेट लेनदार पैसर्स एप्पैथी इन्फ्रा एण्ड इंजीनियरिंग प्रा.लि. की कॉर्पेरेट ऋण शोधन संपाधान प्रक्रिया के राप्यन्ध में इस सचना की तिथि से संपरत धावी राप्पक के लिए अधोहरताक्षरी से सप्पर्क करने का निवेदन किया जाता है। ऋण शोधन सपाधान प्रक्रिया के प्रारंगिय विवरण निप्नलिखित हैं।

कॉर्पेक्ष देनदार का ना एप्पैभी इन्का एण्ड इंजीनियरिंग प्राहरोट लिपिटेड U45400HR2012PTC047281 कॉर्पेस्ट देनदार का पंजीकुरा 305 C, तुवीय पॉजिल, सोहना रोड, रोट्टर क गुरुप्राप्, इरियाणा- 122002 श्री प्रदीप कुमार लखानी आईआरपी का नाम (2४.02.2020 हो) IBBI/IRA-001/1P-P00541/2017 2018/10966 379, तेक्टर का, निजय जम्मुनियी तेंबर, गुरुप्राप हरियाणा-122012 केबीजी इंसॉल्वेंसी एडवाइजर्स प्रा.लि C/o प्रदीप कुमार लखानी 405, न्यू दिल्ली हाठरा 27 आराखण्या रोड, कनॉट फोस, नई दिल्ली-110001 तिथि : 13.03.2020 रथ्यान : नई दिल्ली अन्तरिप समाधान प्रोफेशनल

एप्पैथी इन्फ्रा एप्ड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिपिटेड पंजीकरण सं. : TBBI/TR A-001/1P-P00541/2017-2018/10966

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईट, मेसर्स मुथुट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथुट चेम्बर्स बैनर्जी रोड, कोच्चि — 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.12.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छक सभी व्यक्ति भाग ले

नीलामी की तिथि: 21.03.2020

Sardar Shahar: MUL-480, 485, 505, 567, 608, 669, 792, 1064, 1096, 1130, 1285, 1468 Date of Auction: 23.03.2020 Churu Nai Sadak: MGL-1326, MSL-4578, MUL-102, 160, 201, 269, 276, 279, 504, 554.

613, 616, 636, 668, 681, 703, 707, 730, 781, 852, 930, 935, 966, 975, 1080, 1640 नीलामी की तिथि: 24.03.2020

Kuchaman: MBL-748, MUL-1004, 1156, 1268, 1348, 1413, 1593, 2204, 2577

नीलामी की तिथि: 25.03.2020 Makrana: MUL-51, 114, 395, 603, 609, 650, 659, 671, 680, 691, 776, 778, 808, 892, 1072. 1163, 1291, 1523, 1706, 1712, 1960, 2133, 2347, 2433

नीलामी की तिथि: 26.03.2020 Sujangarh: MUL-581, 816, 838, 855, 878, 933, 937, 938, 990, 994, 995, 1042, 1048, 1081, 1184, 1209, 1458, 1547, 1707, 1854, 1898, 1944, 2023, 2164, 2200, 2448, 2709,

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.08.2019 की अवधि तक एनपीए खाते) नीलामी की तिथि: 21.03.2020

Sardar Shahar: MGL-404, MSL-3010, 3011, MUL-976, 1166 नीलामी की तिथि: 23.03.2020

Churu Nai Sadak: MUL-896, 1559, 1569, 1971, 2014, 2092, 2969 नीलामी की तिथि: 25.03.2020 Makrana: MUL-2273, 3981

नीलामी की तिथि: 26.03.2020

Sujangarh: MUL-1590, 2901 नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः

उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट,

ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024 नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भूगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर

फार्म ए सार्वजनिक उदधोषणा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 14 के अंतर्गत) जय माँ वैष्णो लोहा प्राइवेट लिमिटेंड के हितधारकों के ध्यानार्थ

1. कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम जय माँ वैष्णो लोहा प्राइवेट लिमिटेड 2. कॉपॉरेट व्यक्ति के गठन की तिथि 25/07/2007 प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट व्यक्ति कंपनी पंजीयक,-कानपुर (उ.प्र.) 4. कॉपॉरेट व्यक्ति की कॉपॉरेट पहचान संख्य U27310UP2007PTC033668 5. कॉर्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय एवं 4 केएम स्टोन, ऑपोजिट टाटा धर्म काटा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता वैलाना चीक, मेरत रोड मुजफ्फरनगर युपी 251003 कॉर्पॉरेट व्यक्ति के संबंध में दिवाला 09/03/2020 परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता आलोक कुमार कुच्छल और टेलीफोन नंबर पंजीकरण संख्या इन्सॉल्वेसी प्रोफेशनल आर / ओ : सी-154, सैक्टर-51 नोएडा-201301 फोन नंबर. +91-9810894275

8. दावों को जमा करने की अंतिम तिथि एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि **जय माँ वैष्णो लोहा प्राइवेट लिमिटेड** ने **09 मार्च** 2020 को स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

ईमेल आई ही : akkuchhal.ip@gmail.com

पंजीयक नंबर : IBBNPA-002/P-N00114/2017-18/10284

आलोक कुमार कुच्छल

लिविवडेटर के हस्ताक्षर

जय माँ वैष्णो लोहा प्राइवेट लिमिटेड के सभी हितवारको को आइटम नंबर 7 के सामने उल्लेख किया पते पर अपने दावों के प्रमाण परिसमापक के पास **08 अप्रैल, 2020** तक या उससे पूर्व जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

वित्तीय लेनदार को केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से अपना दावा जमा करना होगा। अन्य सभी हितचारको व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलैक्टॉनिक पद्धति से अपने दावों के प्रमाण

दावों के झठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

विनांक : 12 मार्च 2020 ख्थान : नोएडा

IBBI/IPA-002/IP-N00114/2017-18/10284 Form G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy

RG INFRA-BUILD PRIVATE LIMITED Name of the corporate debtor 15/04/2005 Date of incorporation of corporate debtor Authority under which corporate debtor is Registrar of Companies- Delhi incorporated / registered Corporate identity number / limited liability U70101DL2005PTC135052 dentification number of corporate debtor Address of the registered office and Regd Off: G-02, Ground Floor, Plot No. SULSC principal office (if any) of corporate debtor B-Block RG City Centre, Lawrence Road Delhi-35. Insolvency commencement date of the 25.09.2019 corporate debtor Date of invitation of expression of interest 14.03.2020 The Resolution Professional by email at: Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at: rakeshjainca@rediffmail.com Norms of ineligibility applicable under The Resolution Professional by email as section 29A are available at: mentioned in column No.8. 10. Last date for receipt of expression of interest | 30.03.2020 06.04.2020 11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants 11.04.2020 12. Last date for submission of objections to provisional list 18.04.2020 13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants 1.04.2020 Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants 15. Manner of obtaining request for resolution The Resolution Professional by email as plan, evaluation matrix, information mentioned in column No.8. memorandum and further information 11.05.2020. 16. Last date for submission of resolution plans 7. Manner of submitting resolution plans Sealed envelope by post by hand to

18. Estimated date for submission of resolution 02.06.2020 plan to the Adjudicating Authority for approval 19. Name and registration number of the Rakesh Kumar Jain resolution professional 20. Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board Address and email to be used for 1670/120, Shanti Nagar, Tri-Nagar, Delhicorrespondence with the resolution professional 110035 rakeshjainca@rediffmail.com 22. Further Details are available at or with

Read Address: 1203/81, 1st Floor, Shanti Nagar, Tri-Nagar, Delhi- 110035

नई दिल्ली

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 RELEVANT PARTICULARS

mode in a password protected pen drive. Regd No: IBBI/ IPA-001/IP-P01297/2018-19/12068 1203/81, 1st Floor, Shanti Nagar, Tri-Nagar, Delhi- 110035 rakeshjainca@rediffmail.com

> RAKESH KUMAR JAIN Resolution Professional **RG INFRA BUILD PRIVATE LIMITED**

to resolution professional Resolution Professional at the correspondence address. It should also be submitted in electronic

The Resolution Professional by email as mentioned in column No.8. 23. Date of publication of Form G 14.03.2020.

Regd No : IBBI/ IPA-001/IP-P01297/2018-19/12068 Date :14/03/2020